



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 कार्तिक 1936 (श०)

(सं० पटना 918) पटना, मंगलवार, 11 नवम्बर 2014

गन्ना उद्योग विभाग

आदेश

24 सितम्बर 2014

सं० वि०उ०-02-16/11-2158—23.09.2014: CWJC No.13980/2014 में दिनांक 01.09.2014 को मा० उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम-1981 की धारा-31(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुरेश कुमार सिन्हा, ईखायुक्त, बिहार, पटना ने मेसर्स न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स लि०, नरकटियागंज, प० चम्पारण द्वारा पेराई सत्र 2014-15 से पेराई सत्र 2016-17 तक के लिए प्रस्तुत 38 (अड़तीस) अपरम्परागत ग्रामों के क्षेत्र आरक्षण प्रस्ताव पर पुनः सुनवायी किया। सुनवायी में संबंधित चीनी मिल के कार्यपालक अध्यक्ष श्री चन्द्र मोहन एवं कार्यपालक उपाध्यक्ष श्री अनिल श्रीवास्तव, सभी ईख पदाधिकारी, सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर एवं संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना उपस्थित थे। इस चीनी मिल के पक्ष में वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के लिए अपरम्परागत ग्रामों से संबंधित गत आरक्षण आदेश का भी अवलोकन किया जिसके अनुसार चनपटिया अंचल का 19 ग्राम, लौरिया अंचल का 12 ग्राम, योगापट्टी अंचल का 07 ग्राम कुल 38 ग्राम चीनी मिल के साथ आरक्षित थे।

अपने क्षेत्र आरक्षण प्रस्ताव के संबंध में नरकटियागंज चीनी मिल के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि उनके लिए 411 ग्रामों का पराम्परागत क्षेत्र गठित है तथा 38 ग्राम अपरम्परागत रूप में आरक्षित है। चीनी मिल का एन.सी.आर. 92.79 लाख किंवाटल निर्धारित है। इनके द्वारा अपने क्षेत्रों में सघन विकास कार्यक्रम संचालित कर गन्ना आच्छादन में बढ़ोतरी सुनिश्चित किये जाने के संबंध में जानकारी दी गयी। साथ ही किसानों को दिये जा रहे विभिन्न सुविधाओं के संबंध में भी बताया गया। चीनी मिल प्रतिनिधि द्वारा मिल के साथ एक 60 KLPD की डिस्टलरी एवं 10 मेगावाट को-जेन उत्पादन इकाई स्थापना का उल्लेख करते हुए बताया गया कि उनको गत वर्ष आरक्षित क्षेत्र में 91021.31 एकड़ में गन्ने का आच्छादन है जिसके अन्तर्गत पेराई हेतु उपलब्ध होने वाले गन्ने की पेराई में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। उनके द्वारा यह अनुरोध किया गया कि गत वर्षों में उनके पक्ष में अपरम्परागत आरक्षित 38 ग्रामों को पुनः पेराई वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के लिए आरक्षित किया जाय।

नरकटियागंज चीनी मिल के प्रस्ताव पर अपति व्यक्त करते हुए लौरिया चीनी मिल के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि नरकटियागंज चीनी मिल द्वारा योगापट्टी, लौरिया एवं चनपटिया अंचल में प्रस्तावित 38 ग्रामों के आरक्षण पर उन्हें आपत्ति है। उन्होंने बताया कि ये ग्राम उनके आरक्षित क्षेत्र से सटे हैं। अतः उन ग्रामों का गन्ना उनके चीनी मिल लौरिया को मिलना चाहिए। उपरोक्त आलोक में लौरिया चीनी मिल के प्रतिनिधि द्वारा इन ग्रामों को उनके पक्ष में आरक्षित किये जाने की मांग की गई। तिरुपति सुगर मिल, बगहा द्वारा भी नरकटियागंज चीनी मिल द्वारा

प्रस्तावित योगपट्टी अंचल के सात ग्रामों के आरक्षण पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाया गया तथा यह बताया गया कि उनके चीनी मिल को गन्ने की कमी है अतः ये ग्राम उन्हें आरक्षित होनी चाहिए।

क्षेत्र आरक्षण के विषय पर दिनांक 18.09.2014 को सम्पन्न प० चम्पारण जिले के गन्ना किसानों की हुई सुनवाई के दौरान उनके द्वारा अभिव्यक्त की गयी भावनाओं सहित सभी किसानों, उनके प्रतिनिधियों एवं जन प्रतिनिधियों से प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया। जनपटिया एवं योगपट्टी अंचल अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रामों से संबंधित किसानों ने गत वर्षों में आरक्षित नरकटियागंज मिल के कार्य-कलापो पर संतोष व्यक्त करते हुए तथा उन मिलों से प्राप्त होनेवाले सुविधा एवं दूरी का उल्लेख करते हुए उनके द्वारा आग्रह किया गया है कि गत वर्षों में उनके लिए किये गये क्षेत्रारक्षण व्यवस्था को यथावत् रखा जाय। जन प्रतिनिधियों द्वारा प्रेषित अनुशंसाओं का भी अवलोकन किया। जन प्रतिनिधियों द्वारा इस चीनी मिल को गत वर्ष तक आरक्षित ग्रामों को यथावत् आरक्षित किये जाने की अनुशंसा की गई है। गन्ना कृषकों द्वारा लौरिया चीनी मिल द्वारा किये जा रहे ईख मूल्य भुगतान पर असंतोष व्यक्त किया गया था साथ ही यह भी बताया गया था कि यह चीनी मिल अपनी पूरी क्षमता से पेराई नहीं करती है, अतः गन्ना कृषकों को उस मिल में ईखापूर्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तदोपरान्त क्षेत्रीय विकास परिषद की अनुशंसा का भी अवलोकन किया गया एवं विभागीय पदाधिकारियों के मंतव्य को भी सुना गया।

नरकटियागंज चीनी मिल द्वारा क्षेत्रारक्षण हेतु प्राप्त प्रस्ताव एवं कार्यालय अभिलेख आदि के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस चीनी मिल की पेराई क्षमता 7500 टी.सी.डी. है। चीनी मिल का एन.सी.आर. 92.79 लाख विंक्टल है। इस चीनी मिल के गत वर्षों में आरक्षित ग्रामों में जी.पी.एस. सर्वे के आधार पर 91021.31 एकड़ में गन्ने का आच्छादन है तथा इस मिल को एन.सी.आर. एवं आवश्यकता के अनुरूप गन्ने की उपलब्धता है। आम किसानों एवं जन प्रतिनिधियों की सुनवाई में चीनी मिल को गत वर्ष तक आरक्षित ग्रामों यथावत् रखने का अनुरोध किया गया है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त और संबद्ध पक्षों को सुनने के बाद मेसर्स न्यू स्वदेशी सुगर मिल, नरकटियागंज, जिला-प० चम्पारण, बिहार के पक्ष में पेराई सत्र 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 (तीन पेराई सत्रों के लिए) राज्य के पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत निम्नांकित ग्रामों को जिसका विस्तृत विवरण संलग्न अनुसूची 'क' एवं 'ख' में दर्शित है, को अपरम्परागत रूप में आरक्षित किया जाता है।

जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	समेकित कुल ग्रामों की संख्या	ग्रामों के विवरण की अनुसूची
1	2	3	4
प० चम्पारण	योगपट्टी	7	अनुसूची 'क'
	चनपटिया	19	अनुसूची 'ख'
	लौरिया	12	
	<b>कुल योग:-</b>	<b>38</b>	

लेखापित एवं शुद्धिकृत  
सुरेश कुमार सिन्हा,  
ईखायुक्त, बिहार, पटना ।

आदेश से,  
सुरेश कुमार सिन्हा,  
ईखायुक्त, बिहार, पटना ।

पेराई सत्र 2014-15 से 2016-17 तक के लिए न्यू स्वदेशी सुगर मिल लि०, नरकटियागंज, प० चम्पारण, इकाई -प० चम्पारण को अपरम्परागत रूप में आरक्षित 38 ग्रामों की सूची:-

अनुसूची-"क"

जिला का नाम	प्रखण्ड	क्रमांक	ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या
प० चम्पारण	योगपट्टी	01.	ढवेलवा	359
		02.	खुटवनिया	360
		03.	पिपरा नवरगिया	104
		04.	जगदंबापुर	105
		05.	भवानीपुर	42
		06.	ढबिया	41
		07.	कोनहरा	106

अनुसूची-“ख”

जिला का नाम	प्रखण्ड	क्रमांक	ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या
प० चम्पारण	चनपटिया	01.	पुरैना चौवे	58
		02.	बनकट	61
		03.	महना	63
		04.	सेमुआ पुर	64
		05.	बड़वा छाप	65
		06.	कैथवलिया	66
		07.	टिकुलिया	67
		08.	खरगौली	68
		09.	जैतिया	69
		10.	फजिहतवा	70
		11.	बकुलहर	71
		12.	गिद्धा	72
		13.	बंदरा चौवे	76
		14.	विशुनपुर मदाकर	77
		15.	विशुनपुर रघुनाथ	78
		16.	लखौरा निजामत	79
		17.	जिना छपर	80
		18.	रामपुरवा	82
		19.	घोघा	213
	लौरिया	20.	धमौरा	486
		21.	लक्ष्मीपुर	487
		22.	लक्ष्मनौता	488
		23.	लंगड़ा बरवा	489

जिला का नाम	प्रखण्ड	क्रमांक	ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या
		24.	बरवा कला	490
		25.	बौध टोला	504
		26.	सतवरिया	505
		27.	भतौरा	506
		28.	दुमदुमवा	507
		29.	सिहपुर	508
		30.	बसंतपुर	509
		31.	छर्दवाली	510

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
 बिहार गजट (असाधारण) 918-571+50-डी0टी0पी0।  
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>